

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.06.2021 जनपद देवरिया

01. देवरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 09 अभियोग पंजीकृत किये गए

कच्ची शराब के विरुद्ध दिनांक 29.05.2021 से चलाए जा रहे अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत दबिश देकर काफी मात्रा में लहन व भड़ियों को नष्ट करते हुए कच्ची शराब की बरामदगी कर संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी, इसी क्रम में दिनांक 06.06.2021 को जिलाधिकारी देवरिया श्री आशुतोष निरंजन व पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र के निर्देशन में से चलाए जा रहे अभियान के दौरान समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व आबकारी अधिकारीगण के नेतृत्व में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत संभावित स्थानों पर दबिस देते हुए कुल 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध विभिन्न थानों पर कुल 09 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02.थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 2किलो450ग्राम अवैध गांजा के साथ तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक-06.06.2021 को थानाध्यक्ष कोतवाली के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर ग्राम **पीपरपाती पुलिया के पास** से एक व्यक्ति के पास से 900 ग्राम अवैध नाजायज गांजा बरामद किया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछे जाने पर उनसे द्वारा अपना नाम पता **01.धर्मेन्द्र राम पुत्र महेन्द्र राम सा0 कांशीराम आवास ब्लाक नं0 08 कमरा नं0 03 मेहड़ा पुरवा थाना कोतवाली देवरिया** बताया। उसके पास बरामद 900 ग्राम अवैध गांजा को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष कोतवाली के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर ग्राम **पीपरपाती पुलिया के पास** से एक व्यक्ति के पास से 800 ग्राम अवैध नाजायज गांजा बरामद किया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछे जाने पर उनसे द्वारा अपना नाम पता **01.धर्मनाथ पुत्र कालीचरण रामसा0 पाकरगाँव थाना बगहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार** बताया। उसके पास बरामद 800 ग्राम अवैध गांजा को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष कोतवाली के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर ग्राम **पीपरपाती पुलिया के पास** से एक व्यक्ति के पास से 750 ग्राम अवैध नाजायज गांजा बरामद किया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछे जाने पर उनसे द्वारा अपना नाम पता **01.गुड्डू कुमार पुत्र विनोद सा0 वार्ड नं0 08 बेलथरा रोड थाना उभाँव जिला बलिया** बताया। उसके पास बरामद 750 ग्राम अवैध गांजा को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 06.06.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 61 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 06.06.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

■ वाहन चेकिंग के दौरान 99 वाहनों से 1,02,000 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।